

# राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर

## “इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम”

### कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार “इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम” विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 06.07.2020 से 10.07.2020 तक आयोजित किया गया है। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 15 प्रतिभागियों ने जिसमें 01 पुलिस उप अधीक्षक, 08 पुलिस निरीक्षक, 01 कम्पनी कमाण्डर, 03 उप निरीक्षक पुलिस एवं 02 प्लाटून कमाण्डर ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। कोर्स डायरेक्टर श्री रिछपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरुआत कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न आयामों के बारे में बातचीत की।



प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रातः 10.00 से सांय 05.00 तक रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी, संगठित अपराधों से सम्बन्धित जानकारी, साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं ने उपस्थित होकर व्याख्यान दिये, साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के सेवारत पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव प्रशिक्षणार्थियों से साझा किये।

कोर्स के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में श्रीमती सुमन राव, पी. ओ. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने गंभीर संगठित अपराधों में एफआईआर और अभियोजन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानूनों की तुलनात्मक दृष्टि, एफआईआर को रद्द करने पर कानून विषय पर अपना प्रभावशाली व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री परमेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने अपने विषय एटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी करना व फेक कॉल सेन्टर की केस स्टडी को विस्तार

से समझाया। प्रथम दिवस के अन्तिम व तृतीय सत्र में श्री धीरज वर्मा पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने विषय पी आई टी, एन.डी.पी.एस. एकट अधिनियम एवं ड्रग अपराध और सिंथेटिक दवाओं में उभरता हुआ रुझान और इनसे संबंधित केसेज के अनुसंधान तथा अपराधी के बरी होने के प्रमुख कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री संजीव भटनागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., एस.एस.बी., राजस्थान, जयपुर ने विभिन्न आपराधिक गिरोह और उनके तौर-तरीके, राजस्थान में उभरते आयाम एवं अंतर राज्य समन्वय के बारे में विस्तार से समझाया। द्वितीय सत्र में श्री रामसिंह डिप्टी कमांडेन्ट, 5वीं बटालियन आरएसी, जयपुर ने पुरावस्तुओं की चोरी के प्रकरणों की जानकारी प्रदान की। द्वितीय दिवस के अन्तिम सत्र में श्री आर०एस० शर्मा, अति० निदेशक एफ०एस०एल०, (से.नि.) राजस्थान जयपुर ने साक्ष्य संग्रह/संकलन एवं दस्तावेजों/डिजिटल साक्ष्य संग्रह की कला की जानकारी प्रदान की।

तृतीय दिवस के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री आर. एस. बत्रा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा भूमि संबंधी विवादों के अनुसंधान, डबल पट्टा, पावर ऑफ एटॉरनी, ट्रॉसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, अटॉर्नी की शक्ति, रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों से छेड़छाड़ के संबंध में व्याख्यान दिया गया। तृतीय व अन्तिम में श्री ओम प्रकाश पुलिस उप अधीक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा नवीनतम केस स्टडी के साथ बाल तस्करी की जांच के लिए कानूनी प्रावधानों को समझाया।

चतुर्थ दिवस के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित एडवोकेड ने साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 और केस कानूनों के साथ शामिल हैं। तृतीय व अन्तिम सत्र में श्री महावीर सिंह, पुलिस निरीक्षक, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने केस स्टडी के साथ फिरोती के लिए अपहरण के प्रकरण की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

अन्तिम दिवस के प्रथम सत्र में श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़., पुलिस उप अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर ने "इन्वेस्टीगेशन एब्रोड" विषय को समझाया। द्वितीय सत्र में श्री विकास कुमार, उप महानिरीक्षक पुलिस, जेल, राजस्थान, जयपुर ने जेल परिसर में संगठित अपराधों को अंजाम दिये जाने एवं उनके रोकथाम के बारे में विस्तृत रूप से बताया। कोर्स के अन्तिम सत्र में श्री शान्तनु कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर ने संगठित अपराध का परिचय, अवधारणाओं और प्रकारों का अवलोकन विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 10.07.2020 को सांय 04:45 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित ऑडिटोरियम में किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री शान्तनु कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर ने अपने उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स निदेशक श्री रिछपाल सिंह पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा कोर्स के समापन समारोह के मुख्य अतिथि का धन्यवाद जापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

(रिछपाल सिंह)  
पुलिस उप अधीक्षक  
कोर्स निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर